



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 66 ]  
No. 66 ]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 24, 2003/माघ 4, 1924  
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 24, 2003/MAGHA 4, 1924

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

( वाणिज्य विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2003

का.आ. 84(अ).— चूंकि केन्द्र सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि ऐसे अनेक चाय एककों, जिनके ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं, को उनके मालिकों द्वारा या तो छोड़ दिया गया है या फिर उनमें ताला लगा दिया गया है :

और चूंकि यह सूचना दी गई है कि इन चाय एककों के मालिकों ने कामगारों और अन्य कर्मचारियों को मजदूरी, भविष्यनिधि बकाया इत्यादि के भुगतान में आदतन चूक की है ; और

और चूंकि केन्द्र सरकार का मत यह है कि अनुबंध में सूचीबद्ध चाय एककों का प्रबंधन इस ढंग से किया जा रहा है जो चाय उद्योग तथा लोकहित के लिए अत्यधिक प्रतिकूल है,

इसलिए अब चाय अधिनियम 1953, (1953 का 29) की धारा 16 ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा पश्चिम बंगाल, केरल, असम और त्रिपुरा राज्यों में अनुबंध में उल्लिखित बंद किए गए चाय एककों के कार्यों की पूर्ण और समग्र जांच करने के लिए निम्नलिखित तीन अलग-अलग व्यक्ति निकायों को विशेषज्ञ समितियों के रूप में नियुक्त करती है (असम हेतु विशेषज्ञ समिति त्रिपुरा में बंद किए गए चाय एककों की भी जांच करेगी) अर्थात् :-

## पश्चिम बंगाल राज्य के लिए

- ( i ) श्री बी बनर्जी, उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड
- ( ii ) मै0 ए एफ फर्गुसन एंड कंपनी, एपीजे हाउस, द्वितीय तल, बी-ब्लॉक, 15 पार्क स्ट्रीट, कोलकाता-700016

- ( iii ) श्री जी बोरियाह, चाय विकास निदेशक, चाय बोर्ड
- ( iv ) डा० टी सी चौधरी, निदेशक (अनुसंधान), चाय बोर्ड
- ( v ) डा० एन बोर पुजारी, मुख्य सलाहकार अधिकारी, चाय अनुसंधान एसोसिएशन ।

#### केरल राज्य के लिए

- ( i ) श्री विक्रम कपूर, कार्यकारी निदेशक, चाय बोर्ड
- ( ii ) मै० श्रीधर एंड संथानम, 98-ए, iv तल, डा० राधा कृष्णन सलाइ, मैलापुर, चेन्नई-600004
- ( iii ) डा० एन मुरलीधरन, निदेशक, यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ सदर्न इंडिया (चाय अनुसंधान प्रतिष्ठान)
- ( iv ) श्री जी बोरियाह, चाय विकास निदेशक, चाय बोर्ड
- ( v ) डा० टी सी चौधरी, निदेशक (अनुसंधान), चाय बोर्ड

#### असम और त्रिपुरा राज्यों के लिए

- ( i ) श्री आर होरो, कार्यकारी निदेशक, चाय बोर्ड
- ( ii ) मै० ए एफ फर्गुसन एंड कंपनी, एपीजे हाउस, द्वितीय तल, बी-ब्लॉक, 15 पार्क स्ट्रीट, कोलकाता-700016
- ( iii ) श्री जी बोरियाह, चाय विकास निदेशक, चाय बोर्ड
- ( iv ) डा० एम हजारीका, उप निदेशक प्रशासन, प्रमुख (जैव रसायन), चाय बोर्ड
- ( v ) डा० टी सी चौधरी, निदेशक (अनुसंधान), चाय बोर्ड

विशेषज्ञ समितियों के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे:-

I. विशेषज्ञ समितियां निम्नलिखित मामलों से संबंधित कार्यों की पूर्ण एवं समग्र जांच करेंगी ;  
अर्थात्

क) वित्तीय

- नवीनतम वार्षिक रिपोर्टें अथवा तुलन पत्रों में यथा उल्लिखित वर्तमान वित्तीय स्थिति
- उत्पादन की लागत
- जिला औसत की तुलना में औसत बिक्री कीमत प्राप्ति

ख) श्रम

- कामगार उत्पादकता
- श्रमिक - भूमि अनुपात
- कर्मचारियों की संख्या
- औद्योगिक संबंध वातावरण

## ग) भूमि

- प्रति इकाई क्षेत्रवार उपज
- झाड़ियों की अवधि
- रिक्तियों की स्थिति

## घ) प्रबंधन

- वर्तमान प्रबंधन का स्थायित्व
- योग्य प्रबंधकीय क्षमता का आकलन

## ड.) अवसंरचना

- बागानों की अवसंरचना का आकलन
- फ़ैक्टरी की स्थिति
- सामान्य सुविधाएं (अस्पताल इत्यादि)

## II. परामर्शदाता निम्नलिखित के संबंध में परामर्श देगा:-

- संबंधित चाय बागानों का विस्तृत तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता आकलन ।
- इन चाय बागानों का प्रचालन पुनः शुरू करने की दिशा में व्यवहार्यता में सुधार करने और इस संबंध में उचित पुनर्वास पैकेज तैयार करने के लिए विशिष्ट सुझाव ।
- बागानों को लाभ की स्थिति में चलाने के लिए वर्तमान प्रबंधन की क्षमता का विस्तृत आकलन।
- एकक के पुनरुज्जीवन हेतु बैंक योग्य प्रस्ताव ।

विशेषज्ञ समितियां अपनी रिपोर्टें केन्द्र सरकार को ऐसी अवधि के भीतर प्रस्तुत करेंगी जैसी कि केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट की जाए ।

अनुबंधबंद किए गए अथवा ताला बंद चाय एककपश्चिम बंगाल

1.	रहिमाबाद	चाय बागान
2.	रामझोरा	चाय बागान
3.	ढेकलापरा	चाय बागान
4.	कटलमुरि	चाय बागान
5.	पाथोरझोरा	चाय बागान
6.	दिमा	चाय बागान
7.	कालचिनि	चाय बागान
8.	राइमातोंग	चाय बागान
9.	श्रीनाथपुर	चाय बागान

10.	चामुर्ची	चाय बागान
11.	कैरन	चाय बागान
12.	मुंजाइ	चाय बागान
13.	सिपोयधूराह	चाय बागान
14.	सिमुलबारी	चाय बागान
15.	सैयदाबाद	चाय बागान
16.	सैमसिंग	चाय बागान
17.	कोहिनूर	चाय बागान
18.	चौंगतोंग	चाय बागान
19.	रंगनेट	चाय बागान

### केरल

1.	पीरमेड	चाय बागान
2.	लोन ट्री	चाय बागान
3.	कोट्टामात्ताई	चाय बागान
4.	बोनामी	चाय बागान
5.	बेयामोन	चाय बागान
6.	थगामलाइ	चाय बागान
7.	मशुमलाइ	चाय बागान
8.	ग्रेनबाइ	चाय बागान
9.	माउंट	चाय बागान
10.	कोलिकनम	चाय बागान
11.	पुल्लिकानग	चाय बागान
12.	वायानाद जिले में असम ब्रुक टी प्लांटेशन	चाय बागान

### असम

1.	गोविन्दपुर	चाय बागान
2.	हट्टीचेरा	चाय बागान
3.	सुबोंग	चाय बागान

### त्रिपुरा

1.	भेघलीवंध	चाय बागान
2.	शिगनावेश	चाय बागान
3.	कृष्णापुर	चाय बागान

[फा. सं. टी-22015/9/2002-बागान (ए)]

एल. बी. सप्तऋषि, अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th January, 2003

S.O. 84(E).—Whereas, it has come to the notice of the Central Government that a number of tea units, details of which are given in the Annexure, have either been abandoned or locked out by the owners;

And whereas, it has been reported that the owners of these tea units have habitually made default in the payment of wages, provident fund dues etc. to the workers and other employees;

And whereas, the Central Government is of opinion that the tea units, as listed in the Annexure, are being managed in a manner highly detrimental to the tea industry and to public interest,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 16B of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), the Central Government hereby appoints the following three separate bodies of persons as Expert Committees to make a full and complete investigation into the affairs of the closed tea units given in the Annexure in the States of West Bengal, Kerala, Assam and Tripura ( the Expert Committee for Assam shall cover the closed tea units in Tripura also), namely:-

**FOR THE STATE OF WEST BENGAL**

- (i) Shri B.Banerjee, Deputy Chairman, Tea Board.
- (ii) M/s.A.F. Ferguson & Company, APEEJAY House, 2<sup>nd</sup> Floor, Block – B, 15 Park Street, Kolkata – 700016.

- (iii) Shri G.Boriah, Director of Tea Development, Tea Board.
- (iv) Dr.T.C.Choudhuri, Director(Research), Tea Board.
- (v) Dr. N. Borpujari, Chief Advisory Officer, Tea Research Association.

#### **FOR THE STATE OF KERALA**

- (i) Shri Vikram Kapur, Executive Director, Tea Board.
- (ii) M/s Sridhar & Santhanam, No. 98-A, IV Floor, Dr. Radhakrishnan Salai, Mylapore, Chennai – 600004.
- (iii) Dr. N. Muralidharan, Director, United Planters' Association of Southern India, (Tea Research Foundation).
- (iv) Shri G.Boriah, Director of Tea Development, Tea Board.
- (v) Dr. T.C. Choudhuri, Director(Research) Tea Board.

#### **FOR THE STATES OF ASSAM AND TRIPURA**

- (i) Shri R.Horo, Executive Director, Tea Board.
- (ii) M/s.A.F.Ferguson & Company, APEEJAY House, 2<sup>nd</sup> Floor, Block – B, 15 Park Street, Kolkata – 700016.
- (iii) Shri G.Boriah, Director of Tea Development, Tea Board.
- (iv) Dr.M.Hajarika, Deputy Director Administration Head (Bio-Chemistry), Tea Board.
- (v) Dr. T.C. Choudhuri, Director (Research) Tea Board.

The terms of reference to the Expert Committees shall be as follows:-

I. The Expert Committees shall make a full and complete investigation into the affairs relating to the following matters, namely:-

##### **A) FINANCIAL:**

- The present financial position as reflected in recent Annual Reports or Balance Sheets.
- Cost of production.
- Average sale price realisations compared with district averages.

**B) LABOUR:**

- Worker productivity.
- Labour-land ratio.
- Staff strength.
- Industrial relations environment.

**C) LAND:**

- Yield per unit area.
- Age profile of bushes.
- Vacancy status.

**D) MANAGEMENT:**

- Stability of present management.
- Assessment of qualified managerial strength.

**E) INFRASTRUCTURE:**

- Assessment of Estates infrastructure.
- Factory conditions.
- General facilities (hospitals etc.).

**II. The deliverables from the Consultant shall be -**

- Detailed techno-economic viability assessment of the concerned tea estates.
- Specific suggestions to improve the viability towards resumption of operation of these tea estates and to design a suitable rehabilitation package in this regard.
- Detailed assessment of the present management's ability to run the estates on profitable lines.
- Bankable proposals for reviving the unit.

The Expert Committees shall submit their reports within such period as may be directed by the Central Government.

**Annexure****Closed or locked out Tea Units****West Bengal**

1. Rahimabad      Tea Estate

2. Ramjhora	Tea Estate
3. Dheklapra	Tea Estate
4. Katalguri	Tea Estate
5. Pathorjhora	Tea Estate
6. Dima	Tea Estate
7. Kalchini	Tea Estate
8. Raimatong	Tea Estate
9. Srinathpur	Tea Estate
10. Chamurchi	Tea Estate
11. Carron	Tea Estate
12. Munjai	Tea Estate
13. Sepoydhoorah	Tea Estate
14. Simulbarie	Tea Estate
15. Sayedabad	Tea Estate
16. Samsing	Tea Estate
17. Kohinoor	Tea Estate
18. Chongtong	Tea Estate
19. Rungnet	Tea Estate

### Kerala

1. Peermade	Tea Estate
2. Lone Tree	Tea Estate
3. Kottamalai	Tea Estate
4. Bonami	Tea Estate
5. Vagamon	Tea Estate
6. Thangamalai	Tea Estate
7. Pasumalai	Tea Estate
8. Granby	Tea Estate



- |   |            |
|---|------------|
| 9. Mount  | Tea Estate |
| 10. Koliekanam                                      | Tea Estate |
| 11. Pullikanam                                      | Tea Estate |
| 12. Assam Brook Tea Plantation in Wayanad District. |            |

**Assam**

- |                |            |
|----------------|------------|
| 1. Govindapur  | Tea Estate |
| 2. Hatticherra | Tea Estate |
| 3. Subong      | Tea Estate |

**Tripura**

- |                 |            |
|-----------------|------------|
| 1. Meghlibundh  | Tea Estate |
| 2. Shimnacherra | Tea Estate |
| 3. Krishnapur   | Tea Estate |

[F. No. T-22015/9/2002-Plant (A)]  
L. V. SAPTHARISHI, Addl. Secy.

C